



TRIVENI TURBINE LIMITED

CORPORATE OFFICE

8<sup>th</sup> Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida - 201301, U.P., India

T.: +91 120 4308000 | F : +91 120 4311010-11

www.triveniturbines.com

By E-filing

REF: TTL: SE: 08/03

Date: August 6, 2024

<b>BSE Limited</b> P.J. Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 Thru: BSE Listing Centre <b>STOCK CODE: 533655</b>	<b>National Stock Exchange of India Limited</b> Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 Thru: NEAPS <b>STOCK CODE: TRITURBINE</b>
---	---

Dear Sir/Ma'am,

**Subject: Intimation under Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") - Newspaper advertisement of the published financial results.**

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations, we have enclosed herewith copies of the newspaper advertisements published on August 6, 2024 providing extract of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2024.

The advertisements are published in:

- i) Business Standard (English) and (Hindi); and
- ii) Business Line (English)

You are requested to take this information on record.

Thanking you,

Yours' faithfully

**For Triveni Turbine Limited**

**Pulkit Bhasin**

Company Secretary

M. No. A27686

Encl: A/a

QUICKLY.

**Muthoot bags ₹100 crore funding for EV portfolio**



**Kochi:** Muthoot Capital Services Limited entered into a partnership with a UK-based development financial institution for raising long-term debt funds to promote its EV portfolio. Facilitated by Axis Bank, the collaboration entails a deal size of ₹100 crore for providing sustainable mobility solutions. **OUR BUREAU**

**Over ₹177 cr lost in card, internet banking frauds**

**New Delhi:** As much as ₹177 crore was lost in debit card and internet banking frauds in FY24, Parliament was informed on Monday. Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary said the amount of loss due to cyber fraud has increased from ₹69.68 crore in FY23 to ₹177.05 crore in FY24. The quantum of loss in FY22 was ₹80.33 crore; it was ₹50.10 crore in FY21 and ₹44.22 crore in FY20. **PII**

# Rupee ends at all-time low as G-Secs see mild rally

**THE LOW DOWN.** Currency ended 10 paise weaker against last Friday's low of 83.75

**Our Bureau**  
Mumbai


The rupee ended at an all-time low of 83.85 against the dollar on Monday as FPIs sold in the Indian equity markets amid global sell-off, which was triggered by unwinding of carry trades, weak US economic data raising the spectre of a slow-down and the Federal Reserve going in for deeper rate cuts.

However, the Government Securities (G-Sec) saw a mild rally, tracking softening US treasury yields.

Yield of the benchmark 10-year G-Sec declined about 4 basis points even as its price was up about 27 paise.

The rupee unit closed 10 paise weaker on Monday against last Friday's all-time closing low of 83.75. After market hours (3.30 pm), the rupee pierced the 84 to the dollar level.

"The factors that affected the rupee decline include the Japanese Yen gaining



strength due to hike in policy rate by the Bank of Japan and weak US ISM manufacturing and jobs data indicating a gloomy outlook for the US economy, which in turn may prompt the Fed to go for a 50 basis points rate cut either off-cycle or in September. So, carry trade unwinding is underway.

**FPI OUTFLOW**  
FPI outflows too weakened the Indian unit.

"Given these factors, risk aversion has set in, prompting investment in safe haven assets such as gold and treasuries; ₹84 to the dollar is on the horizon if the risk aversion continues," said V Rama Chandra Reddy, Head-Treasurer, Karur Vysya Bank.

Government securities (G-Secs) rallied, tracking the thaw in US yields, which softened on expectations of the Fed kicking off a rate cut cycle either in September or

earlier. Yield of the 10-year benchmark G-Sec closed down about 4 basis points at 6.856 per cent against the previous close at 6.8945 per cent, with its price going up about 27 paise to close at ₹101.691 against the previous close of ₹101.42.

**JOBS DATA**

Sandeep Bagla, CEO, TRUST Mutual Fund, said: "Weak employment data is leading to a significant risk off trade. Market participants are now expecting the US Fed to cut more than 100 bps in next five months, with a high chance of 50 bps cut, on or before the next policy date in September.

"The slowdown in the US is likely to lead to weakening in global (commodity) prices which should lower inflationary expectations in India as well. RBI/MPC, in its policy meeting later this week, could take the global developments into account and signal a change in stance, indicating easier monetary conditions in the near future."

# RBI releases draft circular to mitigate 'model risks in credit'

**Our Bureau**  
Mumbai



The Reserve Bank of India on Monday released a draft circular on 'regulatory principles for management of model risks in credit' for lenders to address potential risks from use of various models for credit management.

The prescriptions in the circular are aimed at ensuring robustness in the process of model deployment by lenders — regulated entities/REs — for credit decisions.

A credit risk model is any quantitative method that applies statistical, economic, financial, or mathematical principles and assumptions to process data into an output to be used for credit decisions.

**'UNCERTAINTIES'**

RBI noted that lenders currently use various models as part of credit management life cycle for borrower selection, credit scoring/rating, pricing, risk management, loan loss provisions, and so on.

It emphasised that inherently, model outputs are ex-

posed to uncertainties as they are based on assumptions which may not manifest in the envisaged ways and may take different forms in a real-world scenario.

"This potentially exposes the REs to model risk, which has implications on prudential aspects of credit risk management, compliance and reputational risk.

"While the application of technology in models has facilitated faster decision-making under complex scenarios, it also adds complexity to the model risk management framework implying the need for a comprehensive understanding, a robust validation mechanism as well as appropriate governance and oversight," RBI said.

The central bank wants

the lenders to put in place a detailed board approved policy with regard to the framework for all models deployed, covering the entire model life cycle.

**ON MODELS**

The RBI said the models used by the REs may either be developed internally or sourced from external third-party suppliers, including under collaborative lending arrangements, or can be a mix of both as per the provisions of the policy.

For model development and deployment, broad principles to be followed should take into account its objectives, problem statements and solution sought from the model should be clearly defined.

"The model shall have the necessary interface with core banking/financial system, liquidity management, asset liability management (ALM) or any other risk management system of the RE.

"Outcomes of the model shall be consistent, unbiased, explainable and verifiable. The same shall form part of the model validation framework," per the circular.

# At \$15.8 billion, India tops the chart in emerging markets fund flows in 2024

**Janaki Krishnan**  
Mumbai

Global emerging markets funds are increasingly allocating a higher proportion of their investments into India and in calendar 2024, funds flows into India topped the charts at 6.12 per cent (of total assets under management), followed by the US at 2.77 per cent and Japan at 2 per cent.

Foreign fund flows into India so far this year aggregated \$15.8 billion compared to \$14.6 in 2023. In contrast, allocation to China has

shrunk and so far there have been outflows of \$16.6 billion compared to inflows of \$4.2 billion in 2023, according to data collated by Elara Capital.

India has been a direct beneficiary of the weakness in the Chinese economy so that the gap between the two countries has narrowed with India at currently 20 per cent and China at 23 per cent in terms of allocation.

**MSCI REVIEW**

At the MSCI quarterly index review next week this could change and India may surpass China, for the first time



since 2006. The data shows a shift of China funds into India funds, indicating the direct correlation of the weakness of China and how it is affecting global fund flows. Therefore any signs of a re-

turning strength to the Chinese economy could work in its favour and global emerging markets funds increasing their allocation to the country. Since March 2023, GEM funds have deployed \$27 billion into India and pulled out \$29 billion from China. Other emerging markets such as Brazil, Vietnam, Mexico, and Indonesia have also seen outflows this year, compared to inflows last year.

Chinese economy is struggling, domestic demand having weakened with the collapse of the property market and deflationary pressures, Fitch Ratings said.

# WazirX bins 'socialising losses' plan

**Ayushi Kar**  
Mumbai



After facing severe backlash from customers and the crypto community, WazirX has shelved plans to socialise losses. It is now looking for a cash injection to fill the \$230 million hole in its assets even as work is on with agencies to get back a portion of the customers' lost funds.

**PARTNERSHIPS**

Sources in the know told *businessline* that WazirX is pursuing partnership agreements with a mix of foreign and Indian exchanges, some of which could be in the ad-

vanced stage. The crypto community went up in arms last month when WazirX proposed to "socialise losses" after losing 45 per cent of their digital assets, in what is considered to be the biggest crypto hack in recent years.

In effect, to get its exchange up and running, WazirX would redistribute

its existing assets among all of its customer wallets, which means all wallet holders on the exchange will get a 45 per cent haircut even if their tokens were not affected by the July 18 hack.

WazirX put the matter up for a poll which concluded over the weekend. While CEO Nischal Shetty was reticent to reveal the result of the poll, sources indicated that a section of customers are against WazirX's decision to socialise losses at all, making partnership the only natural course.

With over \$220 million of the \$230 million assets still intact and not liquidated by hackers yet, WazirX is hopeful that a portion of these assets will be recovered once negotiations commence.

# Downward rigidity in deposit rates could open up a Pandora's box: SBI

**K Ram Kumar**  
Mumbai



The war for deposits could be prolonged, triggering a paradox of higher deposit rates even with rate cuts, cautioned the State Bank of India's economic research.

This is because the returns on deposits are taxable and their treatment (bank deposits are taxed on an accrual basis compared to competing asset classes being taxed at redemption) is non-uniform compared to other asset classes.

"This could significantly impede (monetary) policy transmission. The RBI needs to innovate on liquidity management. It is time to make the CRR (cash reserve ratio) a countercyclical policy tool," said Soumya Kanti Ghosh, Group Chief Eco-

nomc Advisor, SBI.

He observed that asymmetric transmission (of policy rate changes) takes centre-stage as borrowing is moving down, with the WALR (weighted average lending rate) declining, though weighted average deposit rates are inching up.

Ghosh emphasised that the downward rigidity in deposit rates will open up a Pandora's box in the RBI rate easing cycle.

Given the greater instabil-

ity of CASA (current account, savings account) deposits with the advent of walletisation, apps, IMB (internet and mobile banking), and UPI sweeping the payment landscape, SBI's economic research team observed that time deposits have also been showing a shift to shorter duration (up to three years). Despite banks raising deposit rates handsomely, the returns are not commensurate with the yield on other risky asset classes.

In the latest monthly bulletin, RBI observed the share of low-cost CASA deposits has largely bottomed out in the 39-40 per cent range (of domestic deposits), marking a steady decline from about 44 per cent in 2021-22.

"This is likely to squeeze banks' net margins going forward and prompt the retri-

pling of deposit books. In fact, banks have been impelled to increase the mobilisation of funds through certificates of deposits (CDs) in June, ahead of the quarter-end," the officials said.

SBI's Ghosh cautioned that given the unfavourable tax treatment and application, this could be detrimental to banks' efforts to pass on lower lending rates uniformly to all borrowing cohorts going forward, when the Central Bank induces rate cuts.

"The deposit rates may remain... in higher echelons, posing a challenge to banks' ability to manage their ALM (asset-liability management) prudently and maintain optimal profitability, given the significant capital requirements to fund economic growth and climate-related transitions," he said.

# SBI General, HSBC in bancassurance tie-up

**Our Bureau**  
New Delhi

SBI General Insurance Company Limited (SBI General Insurance) and HSBC India have entered into a bancassurance partnership for the distribution of non-life insurance products through the latter's network. This partnership represents a significant step towards providing accessible and comprehensive insurance solutions, helping increase insurance penetration in the country.

Through this tie-up, SBI General Insurance aims to offer its insurance solutions to HSBC customers across the country.

Under this partnership, HSBC India will offer the entire suite of SBI General In-

surance's non-life insurance products including health, property, motor and travel to its customers.

Speaking on the collaboration, Naveen Chandra Jha, MD and CEO, SBI General Insurance, said, "We are delighted to partner with HSBC India, and serve their esteemed customers across the states. With our innovative range of products and the bank's diverse customer base, we will be able to reach a broader customer base and offer them the protection they need against various risks.

"Together, we are committed to providing innovative insurance solutions and exceptional service to our customers," he added.

Sandeep Batra, Head, Wealth and Personal Bank-



Naveen Chandra Jha (left), MD, SBI General Insurance, and Sandeep Batra, Head, Wealth and Personal Banking, HSBC

ing, HSBC India, said, "This bancassurance tie-up with SBI General Insurance aligns with our commitment to providing comprehensive financial solutions under one roof and deliver unparalleled value to our customers. We look forward to serving our

customers with top-notch insurance products and excellent service standards."

**DIVERSE NEEDS**

The partnership will offer a wide range of insurance solutions to meet diverse consumer needs of affluent Indians across the country through HSBC India's branch and digital network.

Customers will have convenient access to these insurance products, enhancing their overall experience and meeting their specific insurance needs effectively.

Bancassurance is an insurance distribution model where insurance companies partner with banks to sell policies. Both the bank and the insurance company get to benefit from this arrangement.

**Statement of Consolidated unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024**

(₹ in lakhs, except per share data)

Particulars	Quarter ended		Year ended
	30-Jun-2024 (Unaudited)	30-Jun-2023 (Unaudited)	31-Mar-2024 (Audited)
Total Income from Operations	46,328	37,642	1,65,394
Net Profit/(Loss) for the period before tax	10,783	7,861	35,779
Net Profit/(Loss) for the period after tax	8,041	6,096	26,949
Total Comprehensive income for the period [ Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	8,454	6,175	27,236
Equity Share Capital	3,179	3,179	3,179
Other Equity			92,801
Earnings per share of ₹ 1/- each (not annualised)			
(a) Basic (in ₹)	2.52	1.91	8.47
(b) Diluted (in ₹)	2.52	1.91	8.47

**Notes :**

1. Summarised Standalone Unaudited Financial Performance of the Company is as under:

Particulars	Quarter ended		Year ended
	30-Jun-2024 (Unaudited)	30-Jun-2023 (Unaudited)	31-Mar-2024 (Audited)
Total Income from Operations	39,536	30,131	1,37,857
Profit/(Loss) before tax	9,318	5,799	28,373
Profit/(Loss) after tax	6,942	4,336	20,905
Total Comprehensive Income	7,181	4,593	21,204

2. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter ended June 30, 2024 are available on the Stock Exchange's websites ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and on the Company's website ([www.triveniturbines.com](http://www.triveniturbines.com)).

**For TRIVENI TURBINE LIMITED**  
Sd/-  
**Place: Bengaluru**  
**Date: August 05, 2024**  
**Dhruv M. Sawhney**  
**Chairman & Managing Director**

Regd. Office: A-44, Hosiery Complex, Phase II Extension, Noida, U.P. - 201 305  
Corp. Office: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida - 201 301, U.P., India  
Website : [www.triveniturbines.com](http://www.triveniturbines.com), CIN : L29110UP1995PLC041834

# TURN OF THE INTERN

Can India Inc absorb 10 million interns over 5 years?

KRISHNA KANT  
Mumbai, 5 August

India Inc's annual expenditure on corporate social responsibility (CSR) projects is more than sufficient to cover the cost of hiring and training 10 million interns over the next five years, according to this year's Union Budget, presented on July 23. One of its proposals is that India's 500 largest companies will be encouraged to hire 2 million interns a year for the next five years, with the option to use CSR funds to cover 10 per cent of the annual costs associated with these internships.

According to the Companies Act, 2013, companies are required to spend at least 2 per cent of their average net profit over the preceding three years on CSR activities and projects.

Under the programme proposed in the Budget, each intern will receive a monthly allowance of ₹5,000 for a year, in addition to a one-time financial assistance of ₹6,000 for incidental expenses. The companies are expected to bear only 10 per cent of the monthly allowance; the rest will come from taxpayers as subsidy.

Each company will contribute ₹500 a month to an intern from its CSR fund, and the government will cover the remaining ₹4,500. The companies are also expected to bear the cost of the training and administrative expenses.

### Absorption challenge

A back-of-the-envelope calculation suggests that the BSE 500 companies — India's top 500 listed companies — could hire up to 2.37 million interns annually using just 10 per cent of their annual CSR expenditure. In 2022-23 (FY23), these companies spent nearly ₹14,200 crore on CSR projects, a sum sufficient to pay the monthly stipend of ₹500 to 23.7 million interns.

Annual corporate data from Capitaline reveals that BSE 500 companies reported a combined net profit of ₹7.83 trillion on average from 2020-21 through FY23.

In comparison, Budget 2024 has allocated ₹19,000 crore for the



### CASH FLOW

BSE 500 companies' P&L summary for FY23

Income/expense	Amount (₹ trn)
CSR spend	0.14
Salary & wage expenses	8.59
Net sales	102.4
PBT	12.2
Net profit	9.5
No. of employees (in million)	6.74

Note: PBT is profit before tax  
Source: Capitaline, company's annual report

internship programme in 2024-25.

Experts observe that the main challenge with the scheme lies in the absorption capacity of India Inc, rather than its financial impact on the companies' profit and loss accounts.

"India's top companies currently lack the organisational wherewithal to hire and train 2 million interns annually, given their current scale of operations and existing employee base. Fortunately, the scheme is voluntary, and interested companies

may leverage the financial incentives announced in the Budget to hire and train interns for future needs," says Rituparna Chakraborty, co-founder and non-executive director at TeamLease Services, one of India's largest staffing companies.

As of the end of FY23, BSE 500 companies had a combined workforce of 6.74 million, a 5 per cent increase from the 6.4 million at the end of FY22. However, not all employees are based in India; a meaningful number works in the overseas subsidiaries of major Indian multinationals such as Tata Consultancy Services, Infosys, Wipro, Tata Motors, Tata Steel, Bharti Airtel, and Samvardhana Motherson.

### Slackening of growth

Analysts argue that it is impractical for companies to swell their workforce by nearly a third within a year.

"The recent employment survey and growth in listed companies' salaries and wages expenses indicate that the pace of new hiring is pointedly slower than the Budget's target. Besides, companies in recent

years have been focusing on rationalising employee costs through investments in labour-saving technologies like automation and digitisation," says Dhananjay Sinha, co-head of research and equity strategy at Systematix Institutional Equities.

The BSE 500 companies collectively spent ₹8.59 trillion on salaries and wages in FY23, up 15.2 per cent from ₹7.46 trillion in FY22.

Madan Sabnavis, chief economist at Bank of Baroda, also believes the scheme may fall short of its target. "Most of the recent hirings in the corporate sector have been in service industries such as information technology, banking and finance, and retail. These sectors are now facing a slackening of growth, greatly reducing their need for new hires," he says.

India Inc's seven largest employers, with a total employee base of 2 million in FY23, added only 45,000 to their headcount in FY24. This sample includes TCS, Infosys, Wipro, HCLTech, Coal India, State Bank of India, and HDFC Bank.

# Recreating magic of single-screen in UP

VIRENDRA SINGH RAWAT  
Lucknow, 5 August

After handing over the proposed 1,000 acre Noida Film City project earlier this year to a consortium that includes Hindi film producer Boney Kapoor, Uttar Pradesh is now looking to revive closed cinema halls in the state.

At present, there are around 156 standalone cinema halls and 78 multiplexes in the state, which is looking to position itself as a favourable filmmaking destination with the proposed Noida Film City. It already provides a slew of benefits to filmmakers who shoot their projects in UP, cast local artistes, and make films in vernacular languages.

However, according to estimates, 800 standalone cinema halls are lying closed across UP districts owing to dwindling ticket sales vis-à-vis multiplexes, and due to a lack of funds for renovation.

UP Chief Minister Yogi Adityanath has asked officials to draft a blueprint to revive cinemas and facilitate construction of multiplexes and single-screen halls, especially in the districts devoid of entertainment avenues. "The incentive scheme will not only ensure access to entertainment for the public but also boost investment and generate employment," he told officials recently. There are no multiplexes in 39 of UP's 75 districts. Ten districts do not have any cinema theatre, neither multiplex nor single-screen. In such a scenario, the Yogi government aims at providing cinema venues in laggard districts with the help of local entrepreneurs or large investors.

The state will provide incentives to develop commercial complexes and small-capacity theatres on the sites of closed or operational cinemas, reopen closed theatres, and build new single-screen theatres. The minimum seat



There are around 156 standalone cinema halls and 78 multiplexes in Uttar Pradesh, which is looking to position itself as a favourable filmmaking destination with the proposed Noida Film City

requirement for cinemas will be relaxed to create opportunities for investors, while tax breaks are also in the works. The scheme will unlock the economic value of closed theatres by either reviving them or converting them into real estate projects, depending on location and financial viability.

Ashish Agarwal, the UP Cinema Exhibitors Federation President, says the proposed scheme will greatly benefit the entertainment sector, generate employment, and provide tax revenue to the state.

Agarwal, who is also the UP Malls and Multiplex Association's General Secretary, told *Business Standard* a committee was earlier formed at the state level under the UP housing principal secretary and consisting of representatives from other departments, including information, GST, industry etc. "The committee was tasked

with deliberating on the matter and giving recommendations to the state for reviving the defunct halls," he said.

Agarwal, who himself was on the committee, said the recommendations included giving State GST (SGST) breaks for six and five years, respectively, to multiplex projects in districts without a multiplex and with a multiplex.

The state is expected to allow the owners of closed cinema halls to convert their property into real estate projects spanning commercial spaces, housing, guest houses, etc.

"Since most of the owners cannot afford to spend ₹20-30 crore to convert their closed property into a multiplex, the provision to allow them to invest ₹4-5 crore and change the land use would help them greatly," he added.

The industry expects that 100-150 owners of defunct cinema halls could avail of the benefits in near future.

**UP Chief Minister Yogi Adityanath has asked officials to draft a blueprint to revive cinemas and facilitate construction of multiplexes and single-screen movie halls**

## BSmart Case Study Challenge

Calling all future leaders!

Dive into a real-world business challenge and stand a chance to win big.



### Case Study

Microsoft IT Outage: What are the management lessons?

Apocalypses like Microsoft's global IT outage potentially disrupts the brand and its stakeholders as we saw mid-July. It is a management nightmare.

### Rewards

- 1<sup>st</sup> Prize ₹5,000
- 2<sup>nd</sup> Prize ₹3,000
- 3<sup>rd</sup> Prize ₹2,000

- Top 3 winners to be featured on BSmart platform
- Certificate to all eligible participants

### Timeline

- August 01 | Launch
- August 16 | Submission Deadline
- August 30 | Result Declaration
- September 07 | Prize Money Disbursement

Download the BSmart app from [rebrand.ly/BSmartChallenge](https://rebrand.ly/BSmartChallenge) and participate now  
To know more, write to us at [campus.talk@bsmail.in](mailto:campus.talk@bsmail.in)

Follow us on [bit.ly/bsmartchannel](https://www.instagram.com/bit.ly/bsmartchannel)



Statement of Consolidated unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024

(₹ in lakhs, except per share data)

Particulars	Quarter ended		Year ended
	30-Jun-2024 (Unaudited)	30-Jun-2023 (Unaudited)	31-Mar-2024 (Audited)
Total Income from Operations	46,328	37,642	1,65,394
Net Profit/(Loss) for the period before tax	10,783	7,861	35,779
Net Profit/(Loss) for the period after tax	8,041	6,096	26,949
Total Comprehensive income for the period [ Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	8,454	6,175	27,236
Equity Share Capital	3,179	3,179	3,179
Other Equity			92,801
Earnings per share of ₹ 1/- each (not annualised)			
(a) Basic (in ₹)	2.52	1.91	8.47
(b) Diluted (in ₹)	2.52	1.91	8.47

### Notes :

1. Summarised Standalone Unaudited Financial Performance of the Company is as under:

Particulars	Quarter ended		Year ended
	30-Jun-2024 (Unaudited)	30-Jun-2023 (Unaudited)	31-Mar-2024 (Audited)
Total Income from Operations	39,536	30,131	1,37,857
Profit/(Loss) before tax	9,318	5,799	28,373
Profit/(Loss) after tax	6,942	4,336	20,905
Total Comprehensive Income	7,181	4,593	21,204

2. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter ended June 30, 2024 are available on the Stock Exchange's websites ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and on the Company's website ([www.triveniturbines.com](http://www.triveniturbines.com)).

For TRIVENI TURBINE LIMITED

Place: Bengaluru  
Date: August 05, 2024

Sd/-  
Dhruv M. Sawhney  
Chairman & Managing Director

Regd. Office: A-44, Hosiery Complex, Phase II Extension, Noida, U.P. - 201 305  
Corp. Office: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida - 201 301, U.P., India  
Website : [www.triveniturbines.com](http://www.triveniturbines.com), CIN : L29110UP1995PLC041834



Statement of Consolidated unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024

(₹ in lakhs, except per share data)

Particulars	Quarter ended		Year ended
	30-Jun-2024 (Unaudited)	30-Jun-2023 (Unaudited)	
Total Income from Operations	46,328	37,642	1,65,394
Net Profit/(Loss) for the period before tax	10,783	7,861	35,779
Net Profit/(Loss) for the period after tax	8,041	6,096	26,949
Total Comprehensive income for the period [ Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	8,454	6,175	27,236
Equity Share Capital	3,179	3,179	3,179
Other Equity			92,801
Earnings per share of ₹ 1/- each (not annualised)			
(a) Basic (in ₹)	2.52	1.91	8.47
(b) Diluted (in ₹)	2.52	1.91	8.47

Notes :

1. Summarised Standalone Unaudited Financial Performance of the Company is as under:

Particulars	Quarter ended		Year ended
	30-Jun-2024 (Unaudited)	30-Jun-2023 (Unaudited)	
Total Income from Operations	39,536	30,131	1,37,857
Profit/(Loss) before tax	9,318	5,799	28,373
Profit/(Loss) after tax	6,942	4,336	20,905
Total Comprehensive Income	7,181	4,593	21,204

2. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter ended June 30, 2024 are available on the Stock Exchange's websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.triveniturbines.com).

For TRIVENI TURBINE LIMITED

Sd/-

Dhruv M. Sawhney

Chairman & Managing Director

Regd. Office: A-44, Hosiyari Complex, Phase II Extension, Noida, U.P. - 201 305  
Corp. Office: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida - 201 301, U.P., India  
Website : www.triveniturbines.com, CIN : L29110UP1995PLC041834

## DEVYANI INTERNATIONAL LIMITED

Corporate Identification Number: L15135DL1991PLC046758  
Registered office: F-2/7, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020  
Corporate office: Plot No-18, Sector-35, Gurugram - 122004, Haryana  
Tel: +91-124-4566300, E-mail: companysecretary@dil-jrjcorp.com, Website: www.dil-jrjcorp.com

No of outlets  
1,836

54 Net New Stores

Net Revenue  
INR 12,219 Mn

QQ Growth 17%

Reported EBITDA  
INR 2,234 Mn

QQ Growth 28%

Statement of consolidated financial results for the quarter ended on 30 June 2024 [Regulation 33 read with Regulation 47 (1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

(₹ in million, except per share data)

Sl. No.	Particulars	Three months ended on 30 June 2024 (Unaudited)	Year to date 31 March 2024 (Audited)	Three months ended on 30 June 2023 (Unaudited)
1	Total revenue from operations	12,219.01	35,563.17	8,466.34
2	Profit before exceptional items and tax	305.26	176.64	129.61
3	Profit before tax	305.26	36.76	129.61
4	Net profit / (Loss) for the period	224.30	(96.52)	(15.95)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	293.89	312.15	251.37
6	Equity Share Capital (face value of INR.1/- each)	1,206.10	1,205.86	1,205.44
7	Other equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet		9,351.77	
8	Earnings Per Share (of INR. 1/- each) (not annualised for quarters)			
	(a) Basic	0.25	0.39	0.10
	(b) Diluted	0.25	0.39	0.10

See accompanying notes

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on Company's website (www.dil-jrjcorp.com).
- Subsequent to the current quarter, a company namely 'Devyani PVR INOX Private Limited' has been incorporated on July 26, 2024, inter alia to undertake the business relating to development and operation of food courts situated within shopping malls in India. The Company and PVR INOX Limited hold economic interest in the ratio of 51:49.
- The previous period numbers for foreign exchange arising from foreign operations have been reclassified from relevant financial line items including exceptional items to conform with current period presentation.
- These standalone and consolidated financial results for the quarter ended on 30 June 2024 have been reviewed and recommended for approval by the Audit, Risk Management and Ethics Committee and accordingly approved by the Board of Directors of Devyani International Limited ("DIL" or "the Company") at their respective meetings held on 05 August 2024. The Statutory Auditors have conducted a limited review of these financial results.
- The key standalone financial information of the Company is given below:

(₹ in million)

Sl. No.	Particulars	Three months ended on 30 June 2024 (Unaudited)	Year to date 31 March 2024 (Audited)	Three months ended on 30 June 2023 (Unaudited)
1	Total revenue from operations	8,398.84	31,162.22	7,895.37
2	Profit before exceptional items and tax	396.35	1,235.19	525.30
3	Profit before tax	396.35	75.10	525.30
4	Net profit / (Loss) for the period	316.54	(63.37)	395.93
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising/(Loss) Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	315.09	(81.67)	393.37

For and on behalf of Board of Directors of Devyani International Limited

Sd/-

Manish Dawar

Whole time Director & CFO

DIN: 00319476

Place : Gurugram  
Dated : 05 August 2024



प्रमत्त 'जी' रामा पेपर लिमिटेड (सीआइआरपी सी), जो नजीबाबाद रोड, कीरतपुर जिला, बिहार-246 731, उत्तर प्रदेश में काम करना शुरू करने में प्रतिबद्ध है।	
1	कारपोरेट वेबसाइट का नाम वैन एवं सीआइएन नंबर सहित
2	पंजीकृत कार्यालय का पता
3	वेबसाइट का यूआरएल
4	अन्य का विवरण, जहां अधिकार स्वतंत्र अधिकारों के अंतर्गत है
5	प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की संस्थापित क्षमता
6	पिछले वित्तीय वर्ष में बेचे गए प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की प्रमाणा और मूल्य
7	अतिरिक्त/अतिरिक्त/अतिरिक्त की संख्या
8	अतिरिक्त विवरण, दो वही हेतु अतिरिक्त उल्लेख
9	सहायता की धारा 26(2)(ए) के अधीन समाधान आवेदकों हेतु शाखाता उपलब्ध है :
10	अतिरिक्त की अतिरिक्त की प्राप्ति हेतु अतिरिक्त विवरण
11	संभावित समाधान आवेदकों को अनतिरिक्त सूची जारी करने की तिथि
12	अतिरिक्त सूची के बारे में अपरिचित प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त विवरण
13	संभावित समाधान आवेदकों को अतिरिक्त सूची जारी करने की तिथि
14	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना प्राप्त, मूल्यांकन मंडिरा तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि
15	योजनाएं प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त विवरण
16	ई-मेल आई प्रस्तुत करने के लिए प्रोसेस ई-मेल आई सी

## BAG वी.ए.जी. फिल्म्स एण्ड मीडिया लिमिटेड

संसाधन : L74899DL1993PLC051841

पंजीकृत कार्यालय : 352, आयातक प्लाजा, प्लॉट नं. 8, कोकिला, नई दिल्ली-110096

कारपोरेट कार्यालय : एफसी-23, फिलम सिटी, सेक्टर-16ए, नोएडा-201301 (उ.प्र.)

दूरभाष : 91 120 460 2424, फैक्स नं. : 91 120 3911 401

वेबसाइट : [www.bagnetnetwork24.in](http://www.bagnetnetwork24.in), ई-मेल : [info@bagnetnetwork.in](mailto:info@bagnetnetwork.in)

31वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा वृद्ध वकीलार चानकारी की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि वी.ए.जी. फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 31वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') सोमवार, 29 अगस्त, 2024 को शाम 4:30 बजे (भा.मा.स) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विड्युअल साधनों ('ओवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

उक्त एजीएम परिषदों और सेबी परिषदों के अनुपालन में, कंपनी की 31वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां 3 अगस्त, 2024 को उन सभी सदस्यों के पास भेज दी गई हैं, जिनके ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट या डिजिटल डिवाइस के माध्यम से प्रेषित हैं।

31वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा वृद्ध वकीलार चानकारी की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि वी.ए.जी. फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 31वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') सोमवार, 29 अगस्त, 2024 को शाम 4:30 बजे (भा.मा.स) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विड्युअल साधनों ('ओवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

उक्त एजीएम परिषदों और सेबी परिषदों के अनुपालन में, कंपनी की 31वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां 3 अगस्त, 2024 को उन सभी सदस्यों के पास भेज दी गई हैं, जिनके ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट या डिजिटल डिवाइस के माध्यम से प्रेषित हैं।

वैशेष धारिता	वैशेष धारिता
मैसर्स वी.ए.जी. फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड	मैसर्स वी.ए.जी. फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड
वैशेष धारिता	वैशेष धारिता

वैशेष धारिता

वैशेष धारिता

## वसुली अधिकाारी-1/II का कार्यालय

### ऋण वसुली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़ (अतिरिक्त जगह तीसरे व चौथे तल पर भी आबंटित)

#### मांग सूचना

ऋणों की वसुली और दिवाला अधिनियम, 1993 की धाराएं 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की धाराएं अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस RC/201/2022 27.03.2024

#### बैंक ऑफ इंडिया

नाम

#### मेसर्स स्टेटपॉप ट्रेडिंग कंपनी

प्रति,  
(सीबीटी) मेसर्स स्टेटपॉप ट्रेडिंग कंपनी,  
ए-2, प्रथम तल, इंडियन एजुकेशन, दिल्ली अपने प्रॉपराइटर श्री राजेश कुमार सक्सेना के माध्यम से  
(सीबीटी) श्री राजेश कुमार सक्सेना, स्टेटपॉप ट्रेडिंग कंपनी के प्रॉपराइटर, निवासी मकान नं. 1/4785, गली नं. 10, बलबीर नगर, एक्सटेंशन शाहदरा, दिल्ली

यह अधिसूचित किया जाता है कि OA/2374/2017 में पीठासीन अधिकारी, ऋण वसुली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) द्वारा पारित आदेशों के अनुसार वसुली प्रमाणपत्र के अनुसार 11.09.2015 से प्रभावी वसुली तक 10% वार्षिक दर से वादकालीन और मध्यम वी साधारण ब्याज और ₹. 62,000/- (रुपये छत्तर हजार मात्र) की लागतों सहित ₹. 69,27,288/- (रुपये छत्तर लाख सत्ताईस हजार दो सौ अठान्न मात्र) की राशि आपको के विरुद्ध (संयुक्त और पृथक रूप में / पूर्ण / सीमित) देय हो गई है।

2. एतद्वारा आपको नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर उपर्युक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश किया जाता है, अथवा बैंक और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसुली अधिनियम, 1993 और इसके तहत नियमों के अनुपालन में वसुली की जाएगी।

3. एतद्वारा आपको सुनाई की अगली तारीख को या इससे पूर्व अपनी परिस्थितियों का ब्यौता एक शपथपत्र में घोषित करने का आदेश किया जाता है।

4. एतद्वारा आपको आगे की कार्यवाहियों के लिए दिनांक 19.08.2024 को समय पूर्व. 1030 को अयोध्याहासरी के समक्ष हाजिर होने का आदेश किया जाता है।

5. उपरोक्त राशि के अलावा आप निम्न का भुगतान करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे:  
(क) प्रमाणपत्र के इतर नोटिस/कार्यवाही निष्पादन के बाद की बुरु अवधि के लिए ऐसी ब्याज भी भुगतान है।  
(ख) इस नोटिस और वारंटों को देने व अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसुली के लिए की अन्य सभी कार्यवाहियों के संबंध में वहन सभी लागत, प्रभार व व्यय।

27.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मुहर के तहत जारी।

वसुली अधिकारी  
ऋण वसुली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

## एनएचपीसी एनएचपीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

CIN: L40101HR1975G0032564

पंजीकृत कार्यालय: एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फिरोजपुर-121003 (हरियाणा)  
ई-मेल: [companysecretary@nhpc.nic.in](mailto:companysecretary@nhpc.nic.in), ईपीएचएस नं.: 0129-2588110 / 2588500,  
वेबसाइट: [www.nhpcindia.com](http://www.nhpcindia.com)

48वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और ई-वोटिंग संबंधी जानकारी

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एससीओ) द्वारा जारी दिनांक 25 सितंबर, 2023 के सामान्य परिषद सं. 2023 व तत्संबंधी अन्य परिषद और दिनांक अक्टूबर, 2023 के सेबी परिषद सं. सेबी/एसओ/सीएफडी/सीएफडी-वीसी-2/पी/सीआईआर/2023/167 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता(लिरिटरिंग) माध्यम एवं प्रकटीकरण अध्याय) विनियम, 2015 (एसओसीआर) के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यों की 48वीं वार्षिक आम बैठक (जिसे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित माना जाएगा) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विड्युअल मीडिया (ओवीएम) के माध्यम से बुधवार, 28 अगस्त, 2024 को अपराह्न 02:30 बजे (भारतीय समयानुसार) को आयोजित की जाएगी, जिसमें दिनांक 30 जुलाई, 2024 की एजीएम सूचना में विनिर्दिष्ट कारोबार संघटित किए जाएंगे।

एजीएम की सूचना में संदर्भित दस्तावेज इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एजीएम की तारीख तक सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरूपित उपलब्ध है। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य कंपनी सूचना को [agn2024@nhpc.nic.in](http://agn2024@nhpc.nic.in) पर अपना नाम, डीपी आईडी और क्लॉइड आईडी / फोडियो नंबर और स्थानीय खाता संख्या (फिन) का उल्लेख करते हुए ई-मेल भेज सकते हैं।

उक्त एजीएम परिषदों और सेबी परिषदों के अनुपालन में, कंपनी की 31वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां 3 अगस्त, 2024 को उन सभी सदस्यों के पास भेज दी गई हैं, जिनके ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट या डिजिटल डिवाइस के माध्यम से प्रेषित हैं।

उक्त एजीएम परिषदों और सेबी परिषदों के अनुपालन में, कंपनी की 31वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां 3 अगस्त, 2024 को उन सभी सदस्यों के पास भेज दी गई हैं, जिनके ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट या डिजिटल डिवाइस के माध्यम से प्रेषित हैं।

उक्त एजीएम परिषदों और सेबी परिषदों के अनुपालन में, कंपनी की 31वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां 3 अगस्त, 2024 को उन सभी सदस्यों के पास भेज दी गई हैं, जिनके ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट या डिजिटल डिवाइस के माध्यम से प्रेषित हैं।

उक्त एजीएम परिषदों और सेबी परिषदों के अनुपालन में, कंपनी की 31वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां 3 अगस्त, 2024 को उन सभी सदस्यों के पास भेज दी गई हैं, जिनके ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट या डिजिटल डिवाइस के माध्यम से प्रेषित हैं।

उक्त एजीएम परिषदों और सेबी परिषदों के अनुपालन में, कंपनी की 31वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां 3 अगस्त, 2024 को उन सभी सदस्यों के पास भेज दी गई हैं, जिनके ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट या डिजिटल डिवाइस के माध्यम से प्रेषित हैं।